



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (श0)
(सं0 पटना 39) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
19 नवम्बर 2014

सं0 22/नि0 सि0 (दर0)16-04/2006/1731—श्री रामाशंकर सिंह (आई.डी.-3679) तत्कालीन सहायक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अवर प्रमंडल-03, बेनीपट्टी के विरुद्ध श्री शशिभूषण ठाकुर, सं0 वि0 सं0 (बचौल) 24 विस्फी मधुबनी से मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के परिक्षेत्राधीन कमला कोशी नहर निर्माण कार्य में बरती गयी भारी अनियमितता के संदर्भ में प्राप्त परिवाद के आलोक में मामले की जाँच उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए आरोपी पदाधिकारी श्री सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदनुसार पत्रांक 663 दिनांक 08.06.11 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' संलग्न करते हुए आरोपी श्री रामाशंकर सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिंह को जाँचित कार्य से असंबद्ध रहने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध कोई भी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया।

अतः श्री रामाशंकर सिंह, सहायक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामाशंकर सिंह, सहायक अभियंता (आई.डी.-3679) को आरोप मुक्त करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 39-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>